

ABM International Limited

REGD. OFFICE: 10 / 60, IND. AREA, KIRTI NAGAR, NEW DELHI-110015
PHONES: 25927878, 25927699, 41426055

E-mail: vkgandhi@abmintl.in | Website: www.abmintl.in CIN No.: L51909DL1983PLC015585

CIN No.: L51909DL1983PLC015585

NSE TRADING SYMBOL - ABMINTLLTD

31.07.2023

To,
The Manager
Listing Department.
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No, C/I, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai — 400 051

Symbol "ABMINTLLTD"

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Clippings of the Notice of Board Meeting which was scheduled to be held on Saturday, 5th August, 2023 for the Quarter Ended 30th June,2023 Notice as got published in the "Financial Express" and "Jan Satta" dated 30th July, 2023.

Kindly take note of the same.

Thanking you,

Your Sincerely

For ABM INTERNATIONAL LIMITED

AMIT KUMAR Date: 2023.07.31 16:30:51 +05'30'

Company Secretary

FE SUNDAY

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

ABM INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L51909DL1983PLC015585 Regd. Office: 10/60, Industrial Area, Kirti Nagar, New Delhi -- 110 015 Phone: 011-41426055 Website: www.abmintl.in

E-mail: vkgandhi@abmintl.in NOTICE OF BOARD MEETING

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday 05" August 2023 at 10/60, industrial Area, Kirti Nagar, New Delhi 110015. inter alia, to consider and approve the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the company for the quarter ended 30° June, 2023. The said notice may be accessed on the Company's website at

http://www.abmintl.inand may also be accessed on Stock Exchange Website at http://www.nseindia.com. Further, the Trading window of the Company pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 read with the Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by designated persons of the Company has been closed for trading of the Company's Equity Shares

from 1" July 2023 and would remain closed until 48 hours after the announcement of Unaudited Financial Results of the Company to Public. For ABM INTERNATIONAL LIMITED

(RAJNEESH GANDHI)

MANAGING DIRECTOR

Place: New Delhi Date: 29.07.2023

DIN: 00244906

CLIX HOUSING FINANCE LIMITED

POSSESSION NOTICE [(Appendix IV) Rule 8(3)]

Whereas the Authorized officer of CLIX HOUSING FINANCE LIMITED (Clix), a Housing Finance Bank Company under the National Housing Bank Act, having its registered office Aggarwal Corporate Tower, Plot No. 23, 5th Floor, Govind Lai Sikka Marg. Raiendra Place, New Delhi-110008, under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 OF 2002) (hereinafter referred to as "Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) of the Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice dated 16.03.2023 calling upon 1. Ram Gopal Pahwa S/o Hukum Chand, 2. Purnima Pahwa W/o Ram Gopal Pahwa, Both R/o Plot No. 42, 2nd Floor New T Block, Matiyala, Uttam Nagar, West Delhi-110059, Also At:- Simran Electrical K-84, Shop No.3, Krishna Park Extn., New Delhi-110018, to repay the amount mentioned in the notice i.e. Rs. 11,58,278.76 (Rupees Eleven Lakhs Fifty Eight Thousand Two Hundred Seventy Eight And Seventy Six Paisa Only) as on 15.03.2023 along with the applicable interest and other charges within Sixty (60) days from the date of receipt

The Borrower had failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrowe and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 28th day of July 2023.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CLIX fo an amount of Rs. 11,58,278.76 (Rupees Eleven Lakhs Fifty Eight Thousand Two Hundred Seventy Eight And Seventy Six Paisa Only) as on 15.03.2023 along with the applicable interest and other charges.

The attention of the Borrower is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY / SECURED ASSET IS AS UNDER: All that piece and parcel of Entire Second Floor Without Roof Rights A Part of Built Up

Free Hold Property Bearing No.42-A, Area Measuring 50 Sg Yds., (Approx), Out of Khasra No.18/18 & 23, Situated In The Revenue Estate of Village Matiala, Delhi State Delhi Colony Known As New T-Block, Uttam Nagar, New Delhi-110059 With Two Bike Parking Space At G/F Bounded As Under: North: Plot No.42A. South: Plot No.102-A. East: Road 20 ft., West: Gali 10 ft. Place: Delhi, Date: 28-07-2023 Authorized Officer, Clix Housing Finance Limited

BDR BUILDCON LIMITED

CIN- L70100DL2010PLC200749 Regi. Office- 21, Ring Road, Third Floor, Lajpat Nagar- IV,

New Delhi-110024 Tel.: 011-2647 7771, Website: www.bdrbuildcon.com,

E-mail: info@bdrbuildcon.com Notice of 13th Annual General Meeting (AGM)

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting of the members of BDR BUILDCON LIMITED will be held on Tuesday 29th August, 2023 at 01:00 p.m. at the Regd. Office of the Company at 21, Ring Road, Third Floor Lajpat Nagar- IV, New Delhi-110024 to transact such Ordinary businesses as set out in the Notice convening the said Meeting.

Electronic copy of Notice of 13th AGM alongwith Attendance Slip and Proxy Form and Annual Report 2022-2023, have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their e mail address physical copies of the above documents have been sent in the permitted mode. The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2023 is also available on the website of the Company viz. www.bdrbuildcon.com and on the websites of the Stock Exchanges.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 20th August 2023 to 29th August, 2023 (Both days inclusive) for the purpose of the 13th Annual General Meeting of the Company.

The above mentioned information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the aforesaid Circulars issued by MCA and SEBI.

For BDR BUILDCON LIMITED Sd/

Place: New Delhi Date: 29.07.2023

RAJESH GUPTA

Managing Director

CLIX HOUSING FINANCE LIMITED

POSSESSION NOTICE [(Appendix IV) Rule 8(3)]

Whereas the Authorized Officer of Clix Housing Finance Ltd. (CLIX), a Housing Finance Bank Company under the National Housing Bank Act., having its registered office Aggarwai Corporate Tower, Plot No.23, 5th Floor, Govind Lal Sikka Marq, Rajendra Place, New Delhi-110008, under the provision of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (hereinafter referred to as "ACT") and in exercise of the powers conferred under Section 13 (2) of the Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice to the following (Borrower) & (Co-Borrower) to repay the amount mentioned in the notice along with the applicable interest and other charges within 60 days from the date of receipt of

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on as

The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CLIX and the applicable interest and other charges. The attention of borrowers is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

Name and Address of Borrower / Co-Borrower:

1. Nazim S/o Sagir Ahmed 2. Nisha Khairoon W/o Sageer Ahmed 3. Sageer Ahmed S/o Maherban All R/o H No. 1790, Gali No. 18, Rajiv Gandhi Nagar, New Mustafabad, North East, Delhi - 110094, Sr. No. 1. Also At: D2/266 Gali No. 2, Nehru Vihar, Davalpur,

Date of Demand Notice: 16-Mar-2023

Delhi-110094 Amount of Demand Notice: Rs. 27,96,419/- (Rupees Twenty Seven Lakh(s) Ninety Six Thousand Four Hundred Nineteen Only) as on dated 15-Mar-2023

Details of Properties: All that piece and parcel of Bearing Residential Plot No. A-21 Second Floor With Roof, Situated At Khasra No. 1208, Havat Enclave, Loni, Pargana, Teh, Loni, Dist Ghaziabad Admeasuring 45 Sq. Yards i.e 37.62 mtr. Containing 1 Bedroom, 1 Drawing Room,

1 Kitchen, 1 Toilet And Bathroom With Attached Balcony, Which Is Bounded As Under; Bounderies: North: Flat No. 20 - A. South: Flat No. 22-A. East: Flat No. 31 - A. West: 30 Feet Possession taken on 27.07.2023 at LONI, GHAZIABAD

Name and Address of Borrower / Co-Borrower: Pawan Srivastava S/o Gaurav Srivastava, 2. Sonam W/o Pawan Srivastava, Both

R/o H. No. 1667, Ward No. 2, Mehrauli, Gadaipur, South Delhi, New Delhi - 110030, Sr. No. 1 Also At:- Lakme Academy, B-14, 2nd Floor, Above Lok Manya Bank, Opp. Metro Pillar No. 10, Lajpat Nagar-11, New Delhi- 110024, Sr. No. 2 Also At:- Flat No. UGF -1, Upper Ground Floor (Front Side), B -Block, Rail Vihar, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh Date of Demand Notice: 29-0ct-2022

Amount of Demand Notice: Rs. 14,88,682.39 /- (Rupees Fourteen Lakh Eighty Eight

Thousand Six Hundred Eighty Two and paisa Thirty Nine Only) as on dated 20-0ct-2022 Details of Properties: All that piece and parcel of Flat No. UGF-1, Front Side Upper Ground Floor, Block-B (MIG) Without Roof Rights Plot No. B-92, Khasra No. 224, Rail Vihar, Shadulabad, Loni, Ghaziabad, U.P. (50 Sq. Yards. I.e. 41.80 Sq. Meters) Bounded By:- East:-Plot No. B-91, West: Plot No. B-93, North:- Plot No. 103, South: Road 25 feet wide. Possession taken on 27.07.2023 at LONI, GHAZIABAD. Name and Address of Borrower / Co-Borrower:

1. Sanjeet Kumar S/o Kedar Singh, 2. Priyanka Devi W/o Sanjeet Singh, Both R/o Property No. C-75, 4th Floor, Garresh Nagar, New Delhi - 110092, Sr. No. 1 Also At :

Sanjeet Transport, C-75, 4th Floor, South Ganesh Nagar, School Block, New Delhi 110092, Sr. No. 2 Also At: S-595, Bhera Enclave, 2nd Floor, School Block Shakarpur, Delhi, Sr. No. 2 Also At:- Flat No. FF-04, First Floor (Rear RHS), Without Roof Rights, Plot No. C-203, Block-C, SLF Ved Vihar Village - Sadullabad, Pargana Loni, Tehsil Loni, Ghaziabad, U.P. Date of Demand Notice: 29-Oct-2022 Amount of Demand Notice: Rs. 11,28,217.75/- (Rupees Eleven Lakh Twenty Eigh

Thousand Two Hundred Seventeen and paisa Seventy Five Only) as on dated 20-Oct-2022 Details of Properties: All that piece and parcel of Property Being Flat No. FF-04; First Floor (Rear RHS), Without Roof Rights, Plot No. C-203, Block-C, SLF Ved Vihar Village- Sadullabad Pargana Loni, Tehsil Loni, Ghaziabad, U.P. Bounded As Under: East: Other Land West: Road 9 Meters Wide, North: Plot No. C-204, South: Plot No. C-202. Possession taken on 27.07.2023 at LONI, GHAZIABAD.

Name and Address of Borrower / Co-Borrower:

1. Vinod S/o Prem Shankar. 2. Khushboo Both R/o E-538. Gali No.10. Nehru Vihar. Daylpur, New Delhi- 110094, Sr. No. 1 Also At: S V Chikan Fabrics 1455/18, 3rd Floor Shree Ram Market Gali Chipvan, Maliwada Nai Sadak, Chandni Chowk, Delhi, Delhi-110006.

Date of Demand Notice: 10-Feb-2023

financialexp.epapr.in

Date: 27.07.2023

Amount of Demand Notice: Rs. 42,57,347.11/- (Rupees Fourty Two Lakh(s) Fifty Seven Thousand Three Hundred Fourty Seven and Paisa Eleven Only) as on dated 08-Feb-2023 Details of Properties: All those piece and parcel of Flat No. SF-01 (Front Side) And SF-02 (Back Side), Second Floor, M.L.G. Without Roof Right On Plot No. A-153, On Constructed On Khasra No.392, Situated at S.L.F. Ved Vihar Village Sadullabad Pargana Loni, Tehsil Loni

District Ghaziabad (U.P). Possession taken on 27.07.2023 at LONI, GHAZIABAD. Place: LONI, GHAZIABAD.

Authorized Officer Clix Housing Finance Limited INDO COTSPIN LIMITED

Regd. Office: 78 K.M. DELHI MILE STONE, NH-44, G.T. ROAD VILLAGE: JHATTIPUR, PANIPAT-132103 (HARYANA) INDIA CIN: L17111HR1995PLC032541

(Amount Rs. In lakhs)										
Particulars	3 Months ended	Year to Date figures for current period ended	Corresponding 3 Months ended in the previous year							
	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022							
	Unaudited	Audited	Unaudited							
Total income from operations (net)	330.11	1354.1	150,54							
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	3.84	25.33	0.18							
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	3.84	25.33	0.18							
Paid-up Equity Share Capital	420,05	420.05	420,05							
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	3.84	258.33	0.18							
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted [in Rupees]	0.07	0.56	0.00							
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted [in Rupees]	0.07	0.56	0.00							
Note:	9 9	3	Ø.							

There is no qualification in the Unaudited Financial Results Report for the quarter ended 30th June, 2023.

ii) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Quarterly Financial Result is available on the Website of Bombay Stock Exchange www.bseindia.com and the Website of the Company www.indocotspin.com. For Indo Cotspin Limited

Bal Kishan Aggarwal Place: Panipat Date: 29th July,2023

MOHINDRA FASTENERS LIMITED CIN: L74899DL1995PLC064215

Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087

Website: www.mohindra.asia Email id: csnidhipathak@mohindra.asia Phone: +91-11- 46200400, 46200401 Fax: +91-11- 46200444 NOTICE

(for the attention of Equity Shareholders of the Company)

Sub.: Transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Demat Account

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ("the Rules"), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for 7(seven) consecutive years or more by any shareholder shall be transferred by the company to the demat account of Investor Education & Protection Fund Authority ("IEPF Authority") within thirty days from its due date i.e. October 30, 2023.

Hence, all the underlying shares in respect of which dividends are not claimed for the last 7 years from financial year 2015-16 have to be transferred to the demat account of IEPF Authority.

The Company has already sent an individual notices to the concerned shareholders at their latest

registered addresses whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority under the said rules, for taking appropriate action on or before the due date. The Company would also upload the details of such concerned shareholders containing the details of name, folio number, demat account number, number of shares on its website

http://mohindra.asia/mfl/IEPF.html. Shareholders are requested to verify the details of the shares and dividend amounts liable to be transferred to the IEPF Demat Account. Shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed as adequate/final notice in respect of issue of Letter of Confirmation (in place of duplicate share certificates)

by the Company/corporate action for the purpose of transfer of shares to IEPF Demat Account. The Shareholders are requested to claim the unclaimed dividends latest by October 29, 2023 to avoid

the transfer of their shares to the IEPF Demat Account. In case the dividends are not claimed by the said date, the Company may initiate necessary action for transfer of unclaimed dividends and shares held by the concerned shareholders in favour of IEPF Authority without any further notice, in accordance with the Rules.

The concerned shareholders may note that upon such transfer, both the unclaimed dividends and the shares transferred to the IEPF Demat Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by them from IEPF Authority only, after following the procedure prescribed under the Rules and also available at the IEPF website i.e., www.iepf.gov.in. No claim shall lie against the company with respect to the unclaimed dividends and shares transferred to the IEPF Authority pursuant to the Rules To claim the above unclaimed dividend amounts, the concerned shareholders may send a request letter on or before October 29, 2023 to the company secretary of the company at Registered office: 304, Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi-Rohtak Road, Delhi-110087 @ Email ID: csnidhipathak@mohindra.asia along with your self-attested KYC documents like PAN, cancelled Cheque (preferably name printed Cheque) and address proof viz. Aadhaar card/Passport/Driving License/Voter ID/Electricity Bill and also kindly write the following details in all your communications/request letter with the Company viz Folio

> For Mohindra Fasteners Limited Sd/

> > **DETAILS OF**

PROPERTY POSSESSED

Nidhi Pathak

OF

Place: New Delhi (Company Secretary & Compliance Officer) Date: July 30, 2023

No./DP id-Client id, Name, Contact No., Email ID & Residential/corresponding address.



NAME AND ADDRESS OF APPLICANT

& LOAN ACCOUNT NUMBER

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Chola Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600 001 Enter a better life Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi -

POSSESSION NOTICE Under Rule 8 (1)

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited ,under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the

undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule 3 of the Rules made The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and

any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges. Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

		DAT DEM NOT	OUTSTAN		DATE
[A]	[8]	[C]	[D]	[E]	[F]
1.	Loan A/c No. X0HEDHE00001339189, X0HEDL00001568531 And X0HEEDL00001569126) 1. Neeraj Goel (Applicant) 2. Late Murti Devi Through its Legal Heir (Details Unknown) (Co Applicant) 3. Surekha Goel (Co Applicant) 4. Vijay Goel (Co_Applicant) 5. Raj Kumar Goyal (Co_Applicant) 6. Late Mahaveer Prasad Agarwal Through its Legal Heir (Details Unknown) (Co_Applicant) 7. Ajay Goel (Co_Applicant) 8. Surbhi Goel (Co_Applicant)	19/04/2023	Rs. 44794544,00 as on 18/04/2023	Built Up Property Bearing No. 1/2369 Measuring 100 Sq Yds Out Of Khasra No. 135/252 Situated In Abadi Of Ram Nagar In Village Of Chandrawali Alias Shahdara, Delhi. Built Up Property Bearing No. 1/2350 , Old No. 1411/2-F Measuring 58 Sq.Yds Out Of Khasra No. 136 Situated In Abadi Of Shanti Building, Ram Nagar, East Loni Road In Area Of Village Chandrawali Alias Shahdara, Delhi. Property Bearing No. 1/2365 Area Measuring 40 Sq. Yds Out Of Khasra No. 135 Situated In The Abadi Of Gali No.4, Ram Nagar Extn. In The Area Of Village Chandrawali, Shahdara, Delhi.	

	7. Ajay Goel (Co_Applicant) 8. Surbhi Goel (Co_Applicant) 9. Sonia Singhal (Co_Applicant) All At: 1/2350, Gali No.4, Mandoli Road, F Also At: 1/2369, Ram Nagar, Village Cha Also At: 1/2365, Gali No.4, Ram Nagar, S	endraw	ali, Sha	h Dara, New Delhi - 110032	
2.	Loan A/c No. X0HEDET00001996797 And HE02DET00000006893) 1. SANJAY KUMAR GUPTA 2. TRIPTI KUMARI 3. M/S LITTLE STAR JUNIOR SECONDARY SCHOOL THROUGH ITS AUTHORIZED REPRESENTATIVE/ PROPRIETORS All At: H.NO. B-17, Ruby Enclave DLF, Ankur Vihar Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201102	01-10-2021	Rs. 26,63,111.58/- as on 31-08-2021	All That Piece And Parcel Of Plot No.17, In Block-B, Admeasuring 100 Sq.Yds., Comprised In Khasra No.365 Min., Situated In, The Area Of Village Saddullabad (DLF Ankur Vilhar), Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad, Uttar Pradesh. Which Is Bounded As Under: -East: Raata 20'Ft, North: Digar Plot/Other Plot, West: Rasta 20' Ft, South: Digar Plot/Other Plot	27-JULY-2023 SYMBOLIC
3.	Loan A/c No. HE02DET00000006760, X0HEDET00002581590 X0HEDET00002581623) 1. Poonam K@ Poonam , Poonam Kapoor (Applicant) 2. Rajesh kapoor (Co_Applicant) 3. Ankit Kapoor@ Kapoor Ankit (Co_Applicant) 4. ARP Industries (Co Applicant) All At: H.No.A-203 ,2nd Floor, Om Vihi	17.01.2023	202: as on (Second Floor Without Roof Rights Of Property Bearing No.203, Area Measuring 108 Sq. Yds. I.E 90.301 Sq.Mtrs-, Out Of Khasra No. 798, Situated In The Area Of Village Nawada Majra Hastsal Delhi, Colony Known As Om Vihar Phase A- 1(1-A) Uttam Nagar, New Delhi, Whoih Is Bounded As Under: North Plot No.202, East-Road 20Ft, West Lane 08Ft, South-Plot No.204.	SYMBOLI

(Co_Applicant) 4. ARP Industries (Co Applicant) All At: H.No.A-203 ,2nd Floor, Om Viha Also At: H.No.59, Khasra No.665, Allahab			West Lane 08Ft , South-Plot No. 204. Uttam Nagar ,New Delhi-110059 Inderprasth, Uttam Nagar ,New Delhi-110059	10-1
Loan A/c No. X0HEDEI00003166436, X0HEDEI00003316138and HE02DEI00000005388) 1. SANJEET SINGH 2. MANJU BALA 3. MAYA DEVI 4. PUNNSONS INDIA All At: Flat No.162, SFS, DDA Flat Pocket 4, Sector -12, Dwarka New Delhi	30.08.2022	Rs. 7,54,299.0 on 27/08/	Allthat Piece And Parcel Of The Property Bearing Plot No. Wz-e 112 Admeasuring150 Sq. yds out Of Rectangle No. 87-88, Killa N0.12-17 Situated In Village Hastsal, Colony Knownas Uttam Nagar, New Delhi Which Is Bounded As Under: East:- Property N0.113, West:- Property N0.111, North:- Gali, South:- Gali	28-JULY-2023 SYMBOLIC

Also At Property No.WZ-E-112, Village Hastsal Uttam Nagar, New Delhi -110059. Also At Flat No.234, Pocket 8 Sarvodaya Apartment Sector -12, Dwarka, New Delhi -110078 Loan A/c No. Entire First Floor Without Roof Rights Said Floor Part 2 HE02DET00000008516.

XOHEDET00003123183, 100 Sq.Yds.Out Of Khasra No. 373 In Block -C Situated In The Area Of Village In The Village Bindapur In Abadi Of Sanjay Enclave, Uttam Nagar, XOHEDET00003141382) 1. DINESH GARG(Applicant) Bindapur In Abadi Or Sanjay Linear: East New Delhi , Which Is BoundedAs Under: East -2. Savita @ Savita G (Co_Applicant) Road, West - Property No. C-44, North - Road, South 3. Shri Mahalaxmi Jewelleres (Co_Applicant) All At: C-25, Bikaner Sweet, Sanjay

Also At: RZ-37, SubhashPark Extn. Tar Factory Chowk, Main Rajapuri, Uttam Nagar, New Delhi -110059 Date: 30/07/2023 Place DELHI Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

Enclave, Uttam Nagar, New Delhi - 110059



सेन्ट बैंक होम फायजेन्स लिमिटेड Cent Bank Home Finance Limited Corporate Office : Mumbai

सेन्ट्रल वेंक ऑफ इंग्डिया की अनुषंगी Subsidiary of Central Bank of India Branch Office: - 3E/10, Mezzanine Floor,

Jhandewalan Extn., Delhi - 110055, PH: 011-35000439 (CIN No. U65922MP1991PLC006427) POSSESSION NOTICE (Rules 8(1) for Immovable Property)

Cent Bank Home Finance Limited, New Delhi

Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice to mentioned borrower to repay the amount to CENT BANK HOME FINANCE LTD. New Delhi Branch within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under section 13(4) of the said Act read with the rule 8 of the said rules on the date mentioned against account. The Borrowers, guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property wil be subject to the charge of the CENT BANK HOME FINANCE LTD. New Delhi Branch for the amount and interest thereon.

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the CENT BANK HOME FINANCE LID., New

Delhi Branch, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

Security interest Act 2002 and in exercise of power conferred under section 13(12) read with rule 3 the

3. 10.	Name of Borrower	Description of Property	Date of Possession	Demand Notice
-	1. Mr. Brij Mohan Sachdeva	Ground Floor without roof right on plot number B- 354, Khasra No. 1377, Block B, New Panchwati		Rs. 23,82,056/- + applicable
	2. Mrs. Poonam Rani Loan Account No. 00603010000087	Colony, Hadbast Gram — Dundahera, Pargana — Loni, Tehsil & Distt. Ghaziabad, U.P. Boundaries of property: East — Plot No. B-343, West — Road 24ft Wide, North — Plot No. B-353, South — Plot No. B-355	25-07-2023 (Symbolic)	interest and all other charges
Ρľ	ace: New Delhi.		Aut	horised Officer

Chola

Managing Director

M#FL

FORMEDING RECEMBED

DIN:00456189

Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600 001. Branch Office: Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13[2] OF THE SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 You, the under mentioned Borrower / Mortgagor is hereby informed that the company has initiated proceedings against you under

the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and that the Notice under 13 (2) of the Act sent to you by Registered Post Ack. Due for Borrower/s has been returned undelivered. Hence, you are hereby called upon to take notice and pay the outstanding loan amount mentioned against the said account with interest accruing there from within 60 days from the date of this publication, falling which the company will proceed against you by exercising its right under Sub-Sec (4) of Section 13 of the Act by enforcing the below mentioned security to realize its dues with interests and costs. It is needles to mention that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to the company.

of the Applicant/s	Loan Amount	Notice & Amount Outstanding	property/ Secured Asset
JINDER MOHAN SAPRA (Applicant) INITA SAPRA (Co_Applicant) IE JAGDISH CHANDER SAPRA (Repr.by Surviving Legal Heirs) Applicant) INJAY SAPRA (Co_Applicant) At: 6/172 Geeta Colony, Gandhinagar, New		(Rupees Fifty Three Lakh Forty Three Thousand Four	All The Piece And Parcel Of First Floor And Second Floor Without Roof Rights Of Property Bearing 6/172 Measuring 62 Sq. Yds. (block-6, Qtr. No. 172) Situated In The Layout Plan Of Jheel Kurenja, Geeta Colony, Delhi
110031, At:534/4, Jheel Khurenja, Near Geeta Colony At: E-16/1245, ist Floor, Khalsa Nagar Bapa I	Police Station, D	elhi -110031	810744057

Date: 30/07/2023 Place DELHI/NCR Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

HARYANA LEATHER CHEMICALS LIMITED HARYANA CIN: L74999HR1985PLC019905

Regd. Office: 72-77, HSIIDC Industrial Estate, Hansi Road, Jind - 126 102 (Hr.) Tel: +91-01681-226645, Fax:+91-01681-225101, E-mail: info@leatherchem.com; Website: www.leatherchem.com

Extract of Standalone unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023

(Rs. In lacs except earning per share amount STANDALONE RESULTS **PARTICULARS** Quarter Ended Year Ended 3 Months ended 3 Months ended 3 Months ended Year Ended 31.03.2023 30.06.2022 31.03.2023 30.06.2023 Un-audited Un-audited Un-audited Audited Revenue From Operations 1,101.65 1.088.24 1.163.94 4,247.88 Other Income 24.30 29.15 30.29 117.31 1,125.95 1,117.39 1,194.23 4,365.19 Total Income (I+II) Expenses 826.67 717.31 867.27 3,085.33 (a) Cost of materials consumed 0.00 0.00 0.00 0.00 (b) Purchases of Stock-in-trade (c) Changes in inventories of finished goods, -23.6218.98 7.20 -22.64work in progress and stock-in-trade 114.47 75.81 102.32 379.81 (d) Employee benefits expense 0.62 1.88 2.39 4.86 (e) Finance Cost 19.00 22.68 18.00 77.68 (f) Depreciation and Amortisation expenses 129.22 195.69 143.55 586.78 (g) Other expenses Total Expenses III (a to g) 1,066.36 1,032.35 1,140.73 4,111.82 IV Profit / (Loss) before exceptional items & Tax (I+II-III) 59.59 85.04 53.50 253.37 V Exceptional Items 0.00 0.00 0.00 0.00 253.37 59.59 85.04 53.50 VI Profit / (Loss) before tax and after exceptional items (IV-V) VII Tax expense 15.00 26.35 10.84 61.35 (1) Current Tax 1.50 0.92 2.00 5.92 (2) Deferred Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 (3) Tax for earlier years 43.09 40.66 186.10 57.77 VIII Profit / (Loss) for the period after Tax (VI-VII) 0.00 0.00 0.00 0.00 IX Other Comprehensive Income (Net of tax) Total Comprehensive Income for the period (VIII+IX) (Comprising Profit/(Loss) and Other Comprehensive 43.09 57.77 40.66 186.10 Income for the period XI Paid-up Equity Share Capital 490.84 490.84 490.84 490.84 (Face Value of Shares Rs.10 each) XII Earnings per equity share (in Rupees) 0.88 1.18 0.83 3.79

held on July 28, 2023. The statutory auditors have expressed an unmodified. Audit opinion on these results. 2 The above results pertain to the Leather Finishing Chemicals manufacturing segment which is the only business segment of the Company in

terms of IND AS 108 on "Operating Segment". 3 The figures for the corresponding previous periods have been restated/regrouped, wherever necessary, to make them comparable.

Date: 28.07.2023 For S.C. Dewan & Co. CA S.C. Dewan Pankaj Jain Chartered Accountants Place: Gurugram

130 Indian Bank डलाहाबाद (A Govt. Of India Undertaking) ALLAHABAD

APPENDIX- IV-A" [See provision to rule 8 (6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of

Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor. the Symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Bank. Kaladhungi Haldwani Branch, Secured Creditor, will be sold on "As is where is". "As is what is", and "Whatever there is" on 31.08.2023, for recovery of Rs. 17,61.828/- (Rupees Seventeen Lakh Sixty one Thousand Eight Hundred Twenty Eight Only) as on 20.07.2023 due to the Indian Bank. Kaladungi Haldwani branch, Secured Creditor from Name & Address of 1. M/s Sachin Enterprises (Borrower), Address : Near Naini Vidyapeeth

Naini Vidyapeeth Cheenpur Unchapul Haldwani-263139. The specific details of the property intended to be brought to sale through e-auction mode are enumerated below:

Details description of the EM of Land (Plot) Khasra no 196 Min Area 0.145 Hect., Khasara No 192 Min Area 0.259 Hect. Khasra Na 7/1 Min Area 0.237 Hect. Total Land Area Property 0.641 Hect./630 Sqmt at Village Devipur, Tehsil Kaladungi, Distt Nainital in the Name of Sachin Jalal S/o Pratap Singh. Boundaries: East - Village Road, West - Boarder of Village Naripur, North - Land of Govind Singh, South -Land of Mohan Singh Jalal.

Encumbrances on property, if any Indian Bank, Kaladhungi Road, Haldwani Reserve Price Rs. 22.68 Lakh (Rupees Twenty Two Lakh Sixty Eight Thousand Only) Earnest Money Deposit Rs. 2.23 Lakh (Rupees Two Lakh Twenty Three Thousand Only) Bid incremental amount Rs. 10,000/-Date and time of e-auction 31.08.2023 from 10:00 AM to 4:00 PM at the platform of e-auction Service Provider https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

Property ID No. IDIB50260797695

desk. For Registration status with MSTC Ltd. please contact ibapiop@mstcecommerce.com and for EMD status please contact ibapifin@mstcecommerce.com. For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: https://ibapi.in and for clarifications related to this portal. please contact help line number '18001025026' and '011-41106131'. Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with https://ibapi.in and

New Delhi

Date: 29.07.2023 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

Date of Demand Name and Address Description of the

(2) Diluted 0.88 1.18 0.83 3.79 The above financial results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company in their meeting

For Haryana Leather Chemicals Limited

Managing Director ICAI MRN: 015678 ICAI FRN: 000934 N

Zonal Office: 1, Gandhi Road Dehradun ph 2713957,2713976 Branch: Kaladhungi Road, Haldwani

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the

Address: Near Naini Vidyapeeth Cheenpur Unchapul Haldwani-263139. 3. Mrs. Hema Jalal W/o Pratap Singh Jalal (Guarantor), Address : Near

Cheenpur Unchapul Haldwani-263139.

2. Mr. Sachin Jalal S/o Pratap Singh Jalal (Proprietor & Mortgagor)

Bidders are advised to visit the website (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) of our e auction service provider MSTC Ltd to participate in online bid. For Technical Assistance Please call MSTC HELPDESK No. 033-23400020/23400021/23400022 and other help line numbers available in service providers help

www.mstcecommerce.com Authorised Officer Date: 30.07.2023 Place: Haldwani, Distt. Nainital

At: H. NO- 6/132, Geeta Colony, Gandhi Nagar, New Delhi- 110031 Also At: 534/4, Jheel Khurenja, Near Geeta Colony Police Station, Delhi -110031 Also At: E-16/1245, 1st Floor, Khalsa Nagar, Bapa Nagar, Karol Bagh, Delhi - 110005, M - 9810744057

5. PRAVEEN KUMAR (Co_Applicant)

Borrower and Guarantor

and Mortgagor

इंडियन बेंक

दक्षिण रलव लोको शेड, एरोडे-638002 भंडार 08/डीएसडी/ईडी/क्रय/विज्ञा./03 की आपर्ति के लिये ई-निविदा सूचना निम्न ई-निविदा आईआरईपीएस वेबसाइट में प्रकाशित है। फर्मों से आग्रह है कि http://www.ireps.gov.in-Login- E Tender-Goods & Services (New) पर लॉगिन कर निविदा के लिये कोट करें। मैन्यअल

कोटेशनों पर विचार नहीं किया जायेगा। बंद होने का समय : 14.30 बजे, निविदा सं.: 58235347 विवरण: रेखा सं. 10 पी. 702.107, एएलटी-यू के अनुरुप हिराची टीएम टायर एचएस–15250ए के लिये बेयर मैग्नेट फ्रेम तय तिथिः 16 अग. 23, 14.30 बजे। **ध्यान दें** : सूक्ष्म लधु उद्यमों (एमएसई'ज) वस्तओं एव

सेवाओं के लिये सार्वजनिक प्रापण नीति के अंतर्ग http://www.ireps.gov.in-IREPS Public document-Southern Railway. में दिये विवरण के अनुसार होंगे।

सहा. सामग्री प्रबंधक/डीएसडी/ईडी

दक्षिण रेलवे

सेन्ट्रल वर्कशॉप, गोल्डन रॉक, दक्षिण रेलवे.

तिरुचिरापल्ली-620004-अतिरिक्त प्रभाग ई-निविदा सुचना सं. सीडब्ल्य/डब्ल्यपी/8150-डब्ल्यसी/बीओएक्सएनएचएल/ओएस-2/750/आरटी तिथि 27.7.2023

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य वर्कशॉप प्रबंधक, सेन्ट्रल वर्कशॉप्स, गोल्डन रॉक, दक्षिण रेलवे,

तिरुचिरापल्ली-620004 द्वारा ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in में दी गई निविदा सूचना के अनुसार निम्न

कार्य का नाम एवं मात्राः प्रॉडक्शन मिक्स#2 - रेलवे द्वारा आपूर्ति की गई प्लेट्स तथा जीओसी परिसरों में

इन्टीग्रेटिंग उपस्करों के साथ रेलवे द्वारा आपूर्ति की गई अंडरफ्रेम के साथ इन्टीग्रेट के साथ ठेकेदार के वेल्डिंग

प्लान्ट्स आदि का उपयोग करते हुए उनके स्वयं की आरएफपी सेक्शन्स तथा कंज्युमेवल्स के साथ ठेकेदार द्वारा 750

बीओएक्सएनएचएल वैगन्स सेट्स के साइड वाल्स, इंड वाल्स, फ्लैप डोर्स तथा फ्लोर प्लेट फिटमेन्ट का निर्माण।

28.6.2023 के 12.00 बजे

Follow us on : witter.com/GMSRailways

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा

करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त रविन्दर सिंह उर्फ गोलू पुत्र

बलकार सिंह निवासी मकान नं. 28/103, कस्तूरबा नगर, शाहदरा,

दिल्ली ने केस एफआईआर नं. 31435/2017 अन्तर्गत धारा 379/411

आईपीसी एक्ट के तहत थाना विवेक विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय

अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए

गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त

रविन्दर सिंह उर्फ गोल मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित

कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **रविन्दर सिंह उर्फ गोलू** फरार हो गया हैं

(या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा हैं) इसलिए

इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि केस एफआईआर नं. 31435/2017

अन्तर्गत धारा 379/411 आईपीसी एक्ट के तहत थाना विवेक विहार,

दिल्ली के उक्त अभियुक्त रविन्दर सिंह उर्फ गोल से अपेक्षा की जाती है कि

वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए

दक्षिण रेलवे

कार्य शाखा. मदरई मंडल

निविदा सूचना सं. एमडीयू-डब्ल्यू-19-2023 तिथि 27.07.2023

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेलवे प्रबंधक/कार्य दक्षिण/रेलवे/मदुरई द्वारा निम्न कार्य के लिये ई-

निविदा आमंत्रित है। मद सं. 1 से 5 के लिये निविदा 21.08.2023 के 14.00 बजे में बंद होगी।

सुश्री प्रीति परेवा

अवधि

12 माह

10 माह

5 माह

6 माह

24 माह

मुख्य महानगर दण्डाधिकारी

कमरा नं. 59, ततीय तल,

(रु.)

187700

409200

126900

23300

209200

शाहदरा, कड़कड़ड़्मा न्यायालय, दिल्ली

रु. लाख में

93.83

11.66

दिनांक 01.09.2023 को या उससे पहले हाजिर हों।

कार्य का नाम

01.07.2023 से 30.06.2024 तक अवधि के लिये

जोनल पिस कार्य का अनुबंध जोन सी-1, विरुद्ध

मदुरई मंडलः वरिष्ठ खंड अभियंता/पर्मानेन्ट

वे/विरूद्धनगर, सेनगोट्टई एवं पुनालूर खंड में

विभिन्न ट्रैक कार्यों के सिलसिले में रेलवे वैगन्स में

लोडिंग, अपलोडिंग एवं स्प्रेडिंग सहित विरूद्धनगर डिपो में 50 एमएस स्टोन मशीन क्रश्ड बैलास्ट का

एमडीयू मंडलः पीएफ नं. 2 एवं 3 पर एमएनएम

एडीईएन/सेन्ट्रल/उप मंडलः निर्जलीकरण

डिसिल्टिंग, वाटर कोर्सेस का क्लीयरिंग तथा

एसएसई/पी.वे./एमजीएमडीयू खंड एलयूएसनं

220ए, 239ए, 259ए, 278ए, 283ए, 291ए,

298ए, 302ए, 305ए, 306ए, 319ए, 325ए,

326ए,331ए, 335ए 342ए, 344बी, 344ए-कुल

18 नग के लिये दो वर्ष की अवधि के लिये एलसी

की जगह सीमित उपयोग के निर्मित सबवेज में

https://www.ireps.gov.in में सूचीकरण कराना होगा।

झाडियों/कचड़े आदि का निपटारा।

DP/8377/SHD/2023

नगर, पी.वे. स्टेशन।

प्रस्तावित संग्रहण तथा आपूर्ति।

पुनालूर-आरपीएफ पोस्ट का निर्माण

स्टेशनों नपर यात्री लिफ्टो का प्रावधान।

(Court Matter)

Follow us on : 📝 twitter.com/@GMSRailway

कार्य के लिये ऑनलाइन निविदा आमंत्रित है।

कार्य का अनुमानित मूल्य

निविदा बंद होने की तिथि एवं सम

निविदा प्रपत्र मुल्य

अनुबंध अवधि

बोली प्रतिभूति राशि

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

'IMPORTANT'

काला, पहचानः माथे पर एडब्लूएस, पहनावाः transactions with companies, associations or individuals पीले रंग की कमीज और नारंगी रंग की शार्ट पैन्ट पहने है, का शव, advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers

भगवती पार्क, मदीपुरी, दिल्ली में दिनांक 22.07.2023 को थाना पंजाबी बाग, दिल्ली के क्षेत्र में पाया गया। इस संदर्भ में DD No. 102A dated 22.07.2023 के तहत थाना पंजाबी बाग, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। अगर किसी को इस शव के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृप्या निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें। थानाध्यक्ष

थाना पंजाबी बाग, दिल्ली DP/8386/WD/2023

हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः नियर इंडरिट्यल डेवलपमेंट कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार–125005 (हरियाणा) ईमेलः info@hisarmetal.com, वेवसाइटः www.hisarmetal.com फोन: (01662) 220067, 220367, 220738 फैक्स: (01662) 220265

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.hisametal.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट

स्थानः हिसार (हरियाणा)

सीआईएन— L70100DL2010PLC200749 रजि. कार्यालय— 21, रिंग रोड, तीसरी मंजिल, लाजपत नगर— 1V, नई दिल्ली—110024 दुरमाषः 011-2647 7771, वेबसाइटः www.bdrbuildcon.com,

> ई-मेलः info@bdrbuildcon.com 13वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड के सदस्यों की | 13वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार 29 अगस्त, 2023 को दोपहर 01:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालयः 21, रिंग रोड, तीसरी मंजिल, लाजपत नगर—IV, नई दिल्ली–110024 में उक्त बैठक के आयोजन के नोटिस में बताए गए सामान्य

उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म एवं वार्षिक रिपोर्ट 2022—2023 के साथ 13वीं एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ संचार उद्देश्यों के लिए पंजीकृत हैं, बशर्ते कि किसी सदस्य ने उसी की एक हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध न किया हो जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां अनुमत मोड में भेज दी गई हैं। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bdrbuildcon.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर

इसके अलावा यह भी नोटिस दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार, सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 20 अगस्त, 2023 से 29 अगस्त, 2023 तिक (दोनों दिन सम्मिलित) कंपनी की 13वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगे ।

के लिए जारी की जा रही है और एमसीए एवं सेबी द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों कि अनुपालन में है।

दिनांकः 29.07.2023

दक्षिण रेलवे

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN:L51909DL1983PLC015585 पंजी. कार्यालय : 10/60, इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 Phone: 011-41426055, Website: www.abmintl.in E-mail: vkgandhi@abmintl.in

बोर्ड की बैठक की सचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं 47 के अनुपालन में अन्य बातों के अलावे 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिये कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार 5 अगस्त, 2023 को 10/60, इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 में

यह सचना कम्पनी की वेबसाईट http://www.abmintl.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट http://www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है। पुनः कम्पनी के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये आधार संहिता के साथ पठित सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी का ट्रेडिंग विण्डो कम्पनी की इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग के लिये 1 जुलाई, 2023 से बंद है तथा कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की सार्वजनिक

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 29.07.2023

Follow us on : w twitter.com/GMSRailways

विस्तृत विवरण वेबसाईट https://www.ireps.gov.in में उपलब्ध हैं। मदुरई मंडल में कार्यों के लिये

ई-निविदा के लिये आवेदन करने के इच्छुक निविदाकारों/ठेकेदारों को ई-निविदा पोर्टल

टिप्पणी: वेबसाईट में बाद में अपलोड की गई किसी भी सुधार अथवा संशोधन के लिये जारी किसी भी

शुद्धिपत्र की जाँच करने का दायित्व निविदाकारों का होगा तथा निविदा जमा करने के समय उसका ध्यान

WISEC GLOBAL LIMITED

CIN: L74140DL1991PLC046609 Reg. Office: NH-II, 2nd Floor, C-Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110028 E-mail: wisecglobal@yahoo.com Website: www.wisecglobal.com Extract of Un-Audited Financial Results (Standalone) for the Quarter and Nine Month Ended June 30, 2023

			(1	Rs. In Lakhs)
Sr.		Quarter Ended Ye Ended 30.06.2023 (Un-Audited) 30.06.2022 (Un-Audited) 31.03 (Un-Audited) 0.00 0.00 (6.38) (8 (1.54) (6.38) (8 (1.19) (0.01) (3 1165.01 1165.01 116	Year Ended	
No.	Particulars		LINESCOTO SHOME MANAGEMENT CONTROL IN	31.03.2023 (Un-Audited)
1	Total Income from operations	0.00	0.00	8,
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(1.54)	(6.38)	(8.32)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(1.54)	(6.38)	(8.32)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(1.19)	(0.01)	(3.76)
5	Total comprehensive income for the period (comprising profit/loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	\$1		2
6	Paid up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	1165.01	1165.01	1165.01
7	Reserves excluding revaluation reserves as per balance sheet of previous accounting year	*0	(45)	-2607.94
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualized, in Rs.) for continuing and discontinued operations	20		
	(a) Basic:	100		53
	(b) Diluted:	1 88		83

The above result has been approved by the Audit Committee and by the Board of Directors of the Compy Julye 29, 2023.

Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 30th June 2023 are available on the website of BSE at www.bseindia.com and on Company's website. By order of the Board

Rakesh Rampal PLACE: New Delhi Director पहचान की अपील



एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नामः नामालूम, पिता का नामः नामालूम, पताः नामालूम, उम्रः 35 वर्ष, लिंगः पुरुष, कदः 5 फुट 5 इंच, रंगः

फोन नं: 011- 25225616, 8750871124

सीआईएन: L74899HR1990PLC030937

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृत हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 12 अगस्त, 2023 को आयोजित की जाएगी।

www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। कृते हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

विनांकः २९ जुलाई, २०२३

(विशेष कुमार चुघ) कंपनी सचिव स्थानः पानीपत

दिनाकः २९ जुलाई.२०२३

बैंक ऑफ इंडिया BOI

में देय बैंक द्वारा एन.पी.ए. के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

असाइनमेंट या बिक्री निविदा आमंत्रित करने तक ही उपलब्ध होगा

कर्जदार/गारन्टर के

श्री नितिन त्यागी पुत्र श्री बलवीर सिंह त्यागी, जी-21:

मांग सूचना की तारीख: 16-06-2023

एनपीए की तिथि: 29-05-2023

भूतल, सेक्टर-10, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद

सीसीः श्री वीरेंद्र शर्मा पुत्र श्री ब्रह्मजीत सिंह शर्मा

मांग सूचना की तारीख: 16-06-2023

एनपीए की तिथि: 29-05-2023

10 / 121, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।

दिनांक : 28-07-2023, स्थान : गाजियाबाद

2 श्री सुरेश गौड़ पुत्र श्री खचेड़ मल गौड़, प्लॉट नं. 121,

सेक्टर-23. संजय नगर गाजियाबाद (सह-उधारकर्ता)

1 श्री सुंदर सिंह पुत्र श्री मोम राज सिंह, एचआईजी जे-

सेक्टर 23, संजय नगर गाजियाबाद (उधारकर्ता)

बैंक डी.आर.टी. अथवा अन्य किसी न्यायालय में विधिक कार्यवाही कर सकता है।

बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड

व्यवसायों के संचालन के लिए आयोजित की जाएगी।

भी उपलब्ध है।

उपरोक्त उल्लिखित जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ

स्थानः नई दिल्ली

कृते बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड राजेश गुप्ता प्रबंध निदेशक

घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद रहेगा। एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिये

(रजनीश गांधी प्रबंध निदेशक DIN: 00244906 के लिए निविदा सूचना

भंडार सं. ई-06/023 की आपूर्ति फर्मों से आग्रह है कि http://ireps.gov.in-login >E.Tender-goods & services (new) पर लॉगिन करें तथा निविदाओं के लिए कोट करें। इन निविदाओं के लिए मैन्युअल कोटेशनों पर विचार नहीं होगा। निविदा बंद होने का समय 14.30 बजे है। निविदा सं. 61235217

भंडारों का संक्षिप्त विवरण : डीसी मोटर आईपी 67 टाइप 400वी एएसी इम्युनिटी मात्राः ४५० नग, तय तिथि : 28.8.2023 निविदा सं. 61235218

भंडारों का संक्षिप्त विवरण : डीसी मोटर 110वी, गिअ बॉक्स के साथ आईपी 67 टाइप 160 वोल्ट्रस एसी इक्युनिव की आपुर्ति।

तय तिथि : 28.8.2023 कपया ध्यान रहे कि केवल आईआरईपीएस पोर्टल द्वारा जम

डिजीटली हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

Follow us on : 📝 twitter.com/@GMSRailway

की ऑनलाइन कोटेशनों को ही स्वीकार जाएगा तथा प्रस्ताव उप मुख्य सामग्री प्रबंधक, सिग्नल स्टोर्स डिपो, पोडानुर

राज. कार्यालय: 78 कि.मी. दिल्ली माइल स्टोन, एनएच-44, जी.टी. रोड गांवः झट्टीपुर, पानीपत-132103 (हरियाणा) भारत सीआईएन: L17111HR1995PLC032541

इंडो कॉटस्पिन लिमिटेड

विवरण	समाप्त तिमाही	वर्तमान समाप्त अवधि हेतु वर्ष तक के आंकड़ें	गत वर्ष में समाप्त संगत तिमाही
	30.06.2023 अलेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित	30.06.2022 अलेखापरीक्षित
प्रचालनों से कुल आय (निवल)	330.11	1354.1	150.54
हर पश्चात सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ∕(हानि)	3.84	25.33	0.18
कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के पश्चात)	3.84	25.33	0.18
वदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	420.05	420.05	420.05
आरक्षितियां (गत के तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	3.84	258.33	0.18
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) रु. 10/- प्रत्येक के) : बेसिक एवं डाइल्यूटेड [रु. में]	0.07	0.56	0.00
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के पश्चात) रु. 10/- प्रत्येक के) : बेसिक एवं डाइल्यूटेड [रु. में]	0.07	0.56	0.00

1. 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है।

2. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दाखिल अलेखापरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। अलेखापरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.indocotspin.com पर उपलब्ध है। इंडो कॉटस्पिन लिमिटेड के लिए

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी ऐक्ट) 2002

के अंतर्गत प्रतिभृतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृतिहित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन)

नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों 🗸 गारन्टरों को सुचित किया

जाता है कि आपको जो हाउसिंग लोन की स्वीकृत हुई थी उसमें बकाया राशि को मांग सुचना की तिथि 18.08.2023 बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार 60

दिनों के अंदर प्रति भूगतान कर दें। हमने निम्नलिखित पते पर जो कि बैंक के रिकार्ड में हैं पर सुचित किया है परन्तु वापस आ गए हैं। अतः यह सूचना

यह सुचना आपके ऋण खाते में मूल एवं ब्याज के न चुकाने के कारण जारी की जा रही है एवं आर. बी. आई के दिशा–निर्देशों के अनुसार आपके खाते

यदि आप नीचे दर्शाई गयी राशि भविष्य में लगने वाले ब्याज एवं अन्य खर्चों आदि के साथ, धारा 13(2) के मांग सूचना पत्र के अनुसार बैंक को चुकाने

में असमर्थ रहते हैं तो बैंक उपरोक्त एक्ट की धारा 13 के उपनियम 4 के अंतर्गत प्राप्त सभी या किसी भी प्रदत्त अधिकार का उपयोग खाते में वसूली हेत्

कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार, सुरक्षित परिसंपत्तियों के रिडेम्प्शन का अधिकार केवल सार्वजनिक

नीलामी के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख तक या सार्वजनिक या निजी संधि से इस्तांतरण के लिए उद्धरण या सुरक्षित परिसंपत्तियों के पट्टे.

आपको यह भी सुचित किया जाता है कि धारा 13 की उप धारा 13 के अंतर्गत आप निम्नांकित सम्पत्तियों का बैंक से पूर्व लिखित स्वीकृती के बिना

संबंधित सौदा न करें (जैसे कि संपत्ति को बेचना, पटटे पर देना या किसी और तरीके से)। यह सूचना बैंक बिना किसी पुर्योग्रह के जारी कर रहा है एवं

युनिट नं. 79

बाल किशन अग्रवाल प्रबंध निदेशक डीआईएनः 0045618

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल,

पताः 32 बी, सेक्टर-62, नोएडा-201307

बंधक / दृष्टिबंधक संपत्ति

का विवरण

क्षेत्रफल 12.088 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री सुंदर सिंह पुत्र

श्री मोमराज सिंह एवं श्री नितिन त्यागी पुत्र श्री बी.एस.

त्यागी के नाम पर है। चौहदी: उत्तर में - 25 फीट चौड़ी

ड, दक्षिण में – एचआईजी दो मंजिला मकान, पुरब

121, भूतल, सैक्टर-10, चिरंजीव विहार,

सम्पत्ति श्री सुरेश गौड़ पुत्र श्री खचेडू मल के नाम पर है।

चौहदी : उत्तर में - पलैट नं. 123, दक्षिण में 3 मीटर

चौडी सडक, पुरव में – 4.5 मी. चौडी रोड, पश्चिम में

- दुकान नं. 24, पश्चिम में – दुकान नं. 26

अचल सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रु. 884072.23 और

(व्यवसायिक दुकान) दुकान नं. जे–25, भृतल, ब्लॉक जे, । भविष्य का ब्याज

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. रु. 499161/- और

गाजियाबाद-यू,पी. में स्थित, क्षेत्रफल 42.09 वर्ग मी., यह इत्यादि सहित

सेक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद, उ.प्र में स्थित, इत्यादि सहित

Criminal Courts, Luumana Judicial Magistrate- 1st Class, Ludhiana

CNR NO: PBLD03-008061-2020 COMA/ 2011/2020 Peshi: 01/09/2023 publication notice for proclamation under section 82 CR.PC Complaint R/w sec- 138 of N.I ACT Kotak Mahindra Bank Vs.

Mailas Notice To: Mailas S/o Mouji R/o Gaon Ranveer Bass Danwari Alwar Jaipur- 301025 Rajasthan Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 01.09.2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in you absence for details logon to:

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_nd tice&district=ludhiana

दाक्षण रलव

सामग्री प्रबंध विभाग, इलेक्टिक लोको शेड. एरोडे 638002 स्टोर्स 22/ईएलएसडी/ईडी/पर्चेज/विज्ञा./13 की आपुर्ति के लिये ई-निविदा सुचना निम्न ई-निविदा आईआरईपीएस वेबसाइट प्रकाशित है। फर्मी से आग्रह है र्रि http://www.ireps.gov.in-Login-Tender-Goods & Services (New) लॉगिन कर निविदा के लिये कोट करें। मैन्युअल कोटेशनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

JMIC Ludhiana

बंद होने का समय : 14.30 बजे. निविदा सं. 72235593 विवरणः 1) आईजीबीटी आधारित 3-फेज डाइव

प्रोपल्सन उपकरण की आपूर्ति, संस्थापन कमीशनिंग 2) व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) तय तिथि: 28 अग. 23, 14.30 बजे

ध्यान दें : सक्ष्म लध उद्यमों (एमएसई'ज वस्तओं एवं सेवाओं के लिये सार्वजनिक प्राप् नीति के अंतर्गत एमएसई'ज को प्रदत्त लाभ लिंव http://www.ireps.gov.in-IREPS **Public document-Southern Railway** में दिये विवरणों के अनुसार होंगे। एडीएमएम/ईएलएसडी/ईर्डी

Follow us on : 📝 twitter.com/@GMSRailwa

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया क्रेनरा बैंक Canara Bank 🖈 क्षेत्रीय कायोलय, हल्ह्रांनी, कुसुमखड़ा क्षेत्रीय कार्यालय, हल्ह्वानी, कुसुमखेड़ा, कब्जा सूचना

बकाया राशि

(रुपये में)

(चल/अचल सम्पत्ति हेतू) भारत करकार का उपक्रम **िविकेट Symbolic** A Government of India Undertaking हल्द्वानी , जिला नैनीताल , उत्तराखण्ड Email : crrohld@canarabank.com

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम २००२, (२००२ का संख्याक ५४) की धारा १३(१२) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम २००२ के नियम ३ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग पत्र निम्न खाते के आगे वर्णित दिनांकों को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर तथा सम्पत्ति के मालिकों से भुगतान की मांग करते हुए संबन्धित सूचना के अन्तर्गत राशि इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों में भुगतान करने के लिए निर्गमित किया। सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर द्वारा राशि के भूगतान में असफल होने पर ऋणियों को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा संपठित नियमों के निमय 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर को विशेषतया तथा जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करें तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से सम्बन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्चों के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-13 की उपधारा (8) के प्रावधान को आकर्षित किया गया है।

क्र. सं.	शाखा का नाम ऋणी एवं जमानतियों का नाम व पता	बंधक चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया धनराशि
	शाखा: काशीपुर 1. मैसर्स अग्रवाल ऑटो ट्रेडर्स, रामनगर रोड, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर द्वारा इसके पार्टनर (अ) श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र तुला राम, मौहल्ला रेहमान खानी गली, काशीपुर। (ब) श्रीमती उमा अग्रवाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल,	वैंक लि0, आईसीआईसीआई लोमबार्ड जनरल इंश्योरेंस क0	कब्जे की तिथि 26.07.2023 न काशीपुर, जेट। सीमाएँ –	
	मौहल्ला रेहमान खानी गली, काशीपुर। एवं मैसर्स उत्तरांचल ऑटो व्हीकल्स प्रा0 लि0, द्वारा इसके निदेशक, (अ) श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र तुला राम, मौहल्ला रेहमान खानी गली, काशीपर।	उत्तर में रोड साईट पर सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल की दुकान एवं श्रीमती साधना जिन्दल के घर का प्रवेश द्वार। 2. बंधक अचल रिहायशी सम्पत्ति के सभी भाग व हिरसे जो वि मार्केट, काशीपुर, जिकला उधमसिंह नगर में स्थित है। क्षेत्रफर वर्ग मीटर। सीमाएँ – पूरब में नगर पालिका का रास्ता, पश्चिम	पीछे की तरफ के 103/1 रहम न 1287.50 वर	खानी गली, मेन र्ग फीट या 119.66

में विजय कुमार का घर, दक्षिण में श्रीमती सीता देवी। (ब) श्री दर्पण अगवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार, मौहल्ला रेहमान खानी गली, काशीपुर। (स) अंचल अग्रवाल पत्नी श्री दर्पण अग्रवाल, मौहल्ला खानी गली, काशीपुर। बंधककर्ता/जमानती – 1) मैसर्स अग्रवाल ऑटो ट्रेडर्स, रामनगर रोड, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, द्वारा इसके पार्टनर (अ) श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र तुला राम, मौहल्ला रेहमान खानी गली, काशीपुर। (ब) श्रीमती उमा अग्रवाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल,

मौहल्ला रेहमान खानी गली, काशीपुर। (स) श्री दर्पण अगवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार, मौहल्ला रेहमान खानी गली, काशीपुर। दिनांक : 30.07.2023

स्थान : क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी

अधिकृत अधिकारी

(બ્રે) **pnb** Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-ए-ई-नीलामी-अचल सम्पत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 शाखा कार्यालय: भवन सं. एस-8. उपहार सिनेमा कॉम्पलेक्स, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन. नई दिल्ली-110016 टरभाष : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com शाखा कार्यालय: दुकान नं. 301 और 302 लक्ष्मी चैम्बर्स 69, राजपुर रोड, देहरादून - 248001 जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कॉलम ए में अंकित कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभावित कॉलम ही में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जैसा कॉलम सी में ार्णित है) मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रतिभृत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, निम्नलिखित विवरणों के अनुसार उसकी बिक्री "जहाँ है जैसे है, जो है यही है और जो कुछ भी है वहीं है

एतदारा अब तक संशोधित प्रतिभति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत कॉलम अ में अंकित कर्जदार(रो)/बंधककर्ता(औ)/विधिक उत्तराधिकारी(यो), विधिक प्रतिनिधि (वाहे ज्ञात या अज्ञात), एक्जीक्यटरी, प्रशासक(को), उत्तराधिकारी(यो) संबंधित कर्जदारों/बंधककर्ता(ओं) (मृतक) के एसाइनी(पों), जैसा मामला हो, को एतद्वारा सूचना दी जाती है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपपा **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (पीएनबी एचएफएल), प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट

आरक्षित मल्य ईएमडी संविद्धा जमा संविद्धा निरीक्षण की नीलामी की ज्ञात ऋण ऋण सं./कर्जदार/सह-कर्जदार मांगकृत राशि तथा कब्जे की बंधक सम्पत्ति का विवरण

/जमानती(याँ) विधिक उत्तराधिकारियाँ के नाम (A)	तिथि (B)	प्रकृति (C)	(D)	(आरपी) (E)	(आरपी का 10%) (F)	करने की अन्तिम तिथि (G)	वृद्धि दर (H)	तिथि एव समय (I)	तिथि एवं समय (J)	भार /कोर्ट केस, यदि कोई (K)
NHL/GRP/1119/757053 श्री संजीव रॉय (उधारकर्ता), श्रीमती अनिदिता रॉय (सह-उधारकर्ता) और सुश्री विलियम्स कॉमर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (सह-उधारकर्ता) श्रा. कार्य.: ग्रीनपार्क	रु. 2,69,11,499.49 तिथि 21-03-2022 तक बकाया	(प्रतीकात्मक)	303, तीसरी मंजिल, टावर सी, एटीएस यूकेट कमर्शियल, प्लॉट नंबर ए2/2, सेक्टर- 132, गौतमबुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301	1,58,67,000/-	চ. 15,86,700/-	12.08.2023	₹. 1,00,000/-	07.08.2023 प्रातः 11:00 बजे से अपराह 04:00 बजे तक के बीच	14.08.2023 प्रातः 10:30 वजे से अपराह 02:00 वजे तक के बीच	बिल्डर का बकाया है
HOU/GRP/0616/298088 श्री अमित त्यागी (उधारकर्ता) और श्रीमती प्रियंका वाई त्यागी (सह-उधारकर्ता) शा. कार्य.: ग्रीनपार्क	रु. 67,35,054.88 तिथि 15-07-2022 तक बकाया	(भौतिक)	12ए 04, 13वीं मंजिल, मेट्रो सूट, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 201009	ぎ. 65,50,000/-	광. 6,55,000/-	04.09.2023	₹. 20,000/-	21.08.2023 प्रातः 11:30 वजे से अपराह 04:00 बजे तक के बीच	05.09.2023 प्रातः 10:30 वजे से अपराह 02:00 वजे तक के बीच	टीपीए प्रॉपर्टी के तहत विल्डर का वकाया संवित है
HOU/GRP/0918/585055 श्री भूषण कुमार अरोड़ा (उधारकर्ता), श्रीमती सरिता अरोड़ा और श्री सौरभ अरोड़ा (सह-उधारकर्ता) शा. कार्य::ग्रीनपार्क	रु. 21,44,505.19 तिथि 13-07-2021 तक बकाया	(भौतिक)	फ्तैट नंबर जी 4, एलआईजी ग्राउंड फ्लोर, प्तॉट नंबर 5 764, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001		रु. 2,04,056/-	04.09.2023	₹. 20,000/-	21.08.2023 प्रातः 11:30 बजे से अपराह 04:00 बजे तक के बीच	05.09.2023 प्रातः 10:30 वजे से अपराह्न 02:00 वजे तक के बीच	कुछ नहीं/ ज्ञात नहीं
HOU/GRP/0916/321299 स्वर्गीय श्री सुनील कुमार (उधारकर्ता) और श्रीमती मंजू सिंगला (सह-उधारकर्ता) शा. कार्यं.: ग्रीनपार्क	रु. 39,43,663.09 तिथि 15-11-2018 तक बकाया	(भौतिक)	फ्लैट नंबर ए-6ए 1, ग्राउंड फ्लोर, क्रिसेंट पार्क, एनएच-24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001	रु. 33,68,000/-	रु. 3,36,800/-	04.09.2023	रु. 20,000/-	21.08.2023 प्रातः 11:30 बजे से अपराह 04:00 बजे तक के बीच	05.09.2023 प्रातः 10:30 वजे से अपराह 02:00 वजे तक के बीच	टीपीए प्रॉपर्टी के तहत विल्डर का वकाया संवित है
HOU/DEH/0218/496588 ऋषि कांत (उधारकर्ता) और रश्मी सिंह (सह-उधारकर्ता) शा. कार्य:: देहरादून	रु. 17,66,240.67 (सत्रह लाख छियासठ हजार दो सौ वालीस रुपये और सड़सठ पैसे मात्र) तिथि 20/01/2022 तक बकाया	(भौतिक)	आवासीय प्लॉट नंबर 11, खसरा नंबर 115/1, गांव- बहादराबाद, परगना- ज्वालापुर, तहसील और जिला- हरिद्वार, उत्तराखंड 249401, भारत। माप-665 वर्ग, फुट. सीमाबद्ध: उत्तर-दूसरों की संपत्ति, साइड की माप 25 फीट, दक्षिण-20 फीट चोड़ी सड़क, साइड की माप 25 फीट, पूर्व-प्लॉट नंबर 10, साइड की माप 26 फीट 6 इंच, पश्चिम- प्लॉट नंबर 12, साइड की माप 26 फीट 6 इंच	13,57,000/-	रु. 1,35,700/-	04.09.2023	₹. 10,000/-	21.08.2023 प्रातः 11:30 वजे से अपराह 04:00 वजे तक के बीच	05.09.2023 प्रातः 10:30 बजे से अपराह 02:00 बजे तक के बीच	কুও নहीं/ স্থান নहीं

*साथ ही 18% की दर से यथाप्रयोज्य भावी ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि जो भगतान तथा/अथवा उसकी वसुली की तिथि तक हए हैं। ** पीएनवी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान में कॉलम सं. к में प्रकटित को छोड़कर उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत आस्तियों के सन्दर्भ में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं। पुन: ऐसे ऋण भार सफल केता/संविदाकार द्वारा अपने दायित्व पर दिये/अदा किये जायेंगे। सम्भावित केता(ओं)/संविदाकारों से उल्लिखित

ऋणभारों की सत्यता स्वतन्त्र रूप से सुनिश्चित करने का निवेदन है। अब तक उपर्युक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, एलिनिएट करने तथा/अथवा निस्तारण से पीएनबी एचएफएल/पीएनबी एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी को प्रतिबन्धित करने का कोई आदेश तथा/कोर्ट इंजक्शन नहीं है।

सम्भावित केता/संविदाकार तथा इच्छक पार्टियां पीएनबी एचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व के दस्तावेजों से सम्बन्धित या स्वामित्व सहित कॉलम-K में उल्लिखित कार्यवाही/पारित आदेश आदि में मुकदमे से सम्बन्धित स्वतन्त्र निरीक्षण कर सकती हैं और अपनी निविदा/संविदा आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव करने से पूर्व सभी पक्षों में स्वयं को सन्तृष्ट कर सकती हैं। संविदाकार(रों) को संविदा प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियम एवं शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा।

कपया ध्यान दें कि प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के सन्दर्भ में संविदाकार/केता बिक्री मृत्य का 25% (जमा धरोहर राशि, यदि कोई हो, सहित) उसी दिन या या अधिकतम अगले दिन जमा करने के लिए बाध्य होगा। यह बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) निपम, 2002 के निपम 9(2) के अनुसार प्रतिभृत लेनदार द्वारा बिक्री मृत्य के 25% राशि की प्राप्ति के बाद ही संविदाकार(रों) के पक्ष में पृष्टि की जायेगी। बिक्री मृत्य का श्रेष 75% राशि बिक्री की पृष्टि पत्र की पावती की तिथि से 15 दिनों के भीतर केता द्वारा जमा किया जाना है और इस राशि को जमा करने में चुक करने पर सम्पत्ति/प्रतिभृति आस्ति की पुन: बिक्री की जायेगी।

मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विक्रेता का नामोल्लेख करें) ई-नीलामी के माध्यम से विक्री संचालित करने वाले अधिकृत प्राधिकारी की सहायता करेंगे जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नं. 68, उसरा तल, सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003, वेबसाइट : www.bankeauctions.com है। सम्पत्ति के निरीक्षण अथवा संविदा दस्तावेज प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी सहायता तथा किसी अन्य पूछताछ या पंजीकरण हेतू आप सम्पर्क करें : ग्रीन पार्क के लिए श्री नदीम खान/ आशीष काला. मोबाइल नंबर 9289413873/9983319789 और देहरादन के लिए श्री मकेश विश्लोई मोबाइल नंबर 7060447017 जो पीएनपीएचएफएल के अधिकत व्यक्ति हैं अथवा या www.pnbhousing.com का सन्दर्भ लें। हस्ता./- प्राधिकत अधिकारी. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्थान:- ग्रीन पार्क, देहरादुन, दिनांक:- 29.07.2023

www.readwhere.com

Note:

For Wisec Global Ltd.

DATE: 29th July, 2023 DIN: 01537696

(भारत सरकार का उपक्रम) CIN- L64202DL2000GOI107905 ई-निविदा सं. आरसीआईएल-2023-प्रीडीवाई-स्मार्ट सिटी-आरएफपी-01 दिनांक - 27-07-2023

पुडुचेरी स्मार्ट सिटी क्षेत्र के लिए एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) और अन्य संबद्ध गतिविधियों के डिजाइन, विकास, एसआईटीसी एवं 05 वर्षों के लिए ओ एंड एम के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन हेतु। निविदा सूचना और शुद्धिपत्र के रूप में संशोधित आरएफपी www.railtelindia.com, https://railtel.enivida.com और

https://eprocure.gov.in/eprocure/a pp पर उपलब्ध हैं. परिशिष्ट/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो तो, केव्ल इन उल्लिखित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। केन्द्र सरकार के समक्ष कंपनी पंजीयक, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा चौथा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमित दायित्व लाझेदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में भीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008, धारा 13(3) के मामले में और **लॉजिकल प्रोफेशनल्स एलएलपी** जिसका पंजीकृत कार्यालय डाऊस नं 280, नियर शनि मंदिर, बक्करवालां, केरट दिल्ली एनए दिल्ली साउज्य केरट दिल्ली दिल्ली-110041 में है, के मामले में आम जनता को एतदडारा सुचित किया जाता है कि

एलएलपी अपने पंजीकृत कॉर्यालय को "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "इरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने हेत अनुमति प्राप्त करने के लिए सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कंपनी गंजीयक, रा.स. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के पास एक पाचिका दाखिल करने का प्रस्ताव करती है। कोई भी व्यक्ति जिसका एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा **कंपनी पंजीयक, रा.स. क्षेत्र दिल्ली** एवं हरियाणा चौथा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पास

रलएलपी के उपरोक्त वर्णित पंजीकत कार्यालय में भी नेजी जानी चाहिए। कृते की ओर से लॉजिकल प्रोफेशनल्स एलएलप् तिथि : 29.07.2023 शोभित वशिष्ठ नियक्त साझेदार स्थान : दिल्ली डीआईएन 🗄 08603958

इस सुबना के प्रकाशन की तिथि से एक्कीस दिनों के मीतर भैज सकता है और इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता